

SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED

Lotus Corporate Park, 'E' Wing, 5th/6th Floor, 185/A, Graham Firth Compound, Near Jay Coach, Goregaon (East), Mumbai 400 063, INDIA.

Phone: (022) 4219 8800/6122 8989 Fax (022) 42198830 E-mail: info@sutleitextiles.com Website: www.sutleitextiles.com

CIN.: L17124RJ2005PLC020927

21st August, 2025

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Fort,

Mumbai 400 001.

Scrip Code: 532782

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1,

G-Block, Bandra-Kurla Complex,

Bandra(E), Mumbai 400 051.

Scrip Code: SUTLEJTEX

Dear Sirs / Madam,

Sub: Opening Special Window for Re-lodgement of transfer requests of Physical Shares - Newspaper Publication

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper notice published in Business Standard (English - All edition) and Rajasthan Patrika (Hindi Daily - Jhalawar edition) regarding Notice to Shareholders about opening of Special Window for Re-lodgement of transfer requests of Physical Shares in accordance with the SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 02nd July, 2025.

This is for the information of the members and exchanges.

Thanking you

Yours faithfully For Sutlei Textiles and Industries Limited

Bhawanimandi (RAJ.)

(RAJ.)

(RAJ.)

Manoj Contractor Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: a/a

Cummins India Limited

Regd. Office: Cummins India Office Campus, Tower A, 5th Floor, Survey No. 21, Balewadi, Pune 411 045, Maharashtra, India (CIN: L29112PN1962PLC012276) Tel.: (020) 67067000 Fax: (020) 67067015 Website: www.cumminsindia.com Email: cil.investors@cummins.com

Notice to the members - proposed Postal Ballot

Pursuant to Section 110 and Section 108 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, in compliance with General Circular 09/2024 dated September 19, 2024 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) read with other relevant circulars issued in this regard and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), members are hereby informed that Cummins India Limited (Company) is proposing to seek consent of the members through postal ballot by way of remote e-voting facility only, to transact the businesses as may be set out in Postal Ballot Notice (Notice) which shall be sent to the members in due course.

In accordance with the aforesaid circulars, Postal Ballot Notice will be sent only in electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/National Securities Depository Limited ('NSDL') and Central Depositories Services (India) Limited ('CDSL') (collectively referred to as 'Depositories' / 'Dps') / Registrar & Transfer Agent ('Registrar' / 'RTA').

The Notice will also be made available on the website of the Company at https://www.cummins.com/en/in/investors/india-investors-notices and on the website of our e-voting facility platform Insta-Vote at https://instavote.linkintime.co.in/ and on the website of the stock exchanges on which the securities of the Company are listed i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at https://www.bseindia.com/ and https://www.nseindia.com/ respectively.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015, as amended and the Circulars, the Company will be providing the facility of remote e-voting to its Members in respect of the business(es) to be transacted through Postal Ballot and for this purpose, the Company has appointed its RTA to facilitate e-voting using Insta-Vote platform. The detailed instructions related to remote e-voting shall be provided in the Notice.

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update the same by sending relevant documents to the RTA along-with duly filled 'Form ISR-1' available at https://web.in.mpms.mufg.com/KYC-downloads.html to MUFG Intime India Private Limited, Unit: Cummins India Limited, C-101, 1st Floor, 247 Park L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email addresses with their respective DPs. The detailed process for registering of email addresses will also be provided in the Notice.

Further, the members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company / RTA can cast their vote through remote e-voting, by following the detailed instructions as may be provided in the Notice.

The above information is issued for the information and benefit of all the members of the Company and in compliance with the Companies Act, 2013 and applicable MCA circulars.

Place: Pune Date: August 20, 2025 Vinaya A. Joshi Company Secretary & Compliance Officer

For Cummins India Limited

K.S. OILS LIMITED CIN: L15141MP1985PLC003171

CIRI: L15141MP1985PLC003171

Reg. Off: Khasra no 61,22/1,28/1/2 A. B. Road, Silavati,
Guna-473 001, Madhya Pradesh, India
Tel: 0124-4173614 I E-mail: compliance@ksoils.in I Website: www.ksoils.in

NOTICE OF THE 31st & 32st AGM AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

In continuation to our earlier advertisement published on dated August 20, 2025, NOTICE is hereby given that the 31st & 32st Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Thursday, September 11, 2025 at 11.00 a.m. & 04.00 PM (IST) respectively THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) to transact the business as set out in 31st & 32st AGM Notice in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with MCA/SEBI Circulars without physical presence of members at common venue.

In compliance with the circulars, the Notice of Virtual AGM and the Annual Report for the financial year 2016-17 & 2017-18 have been sent to all the members electronically to the email ID registered by them with the Company/ Depository Participants on Friday August 15, 2025. The requirement of sending physical copy of the notice to the Members have been dispensed with vide relevant Circulars. Further, the e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2016-17 & 2017-18 of the Company will be available on the website of the Company at www.bsoidia.com & the National Stock Exchange of India Limited www.bsoidia.com & the National Stock Exchange of India Limited www.bsoidia.com and also on the website of e-voting service provider Le. Central Depository Services Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com.

The company is providing e-voting facility to its members holding shares as on Thursday September 04, 2025 being cut off date, to exercise their vote at the ensuing AGM. The members may cast their vote by using an electronic voting system from a place other that the venue of meeting (e-voting). The company has engaged CDSL to provide remote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereof are as under:

- E-voting period commences on Monday, September 08, 2025 at 9:00 A.M and ends on Wednesday, September 10, 2025 at 5:00 P.M.
 The voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 P.M. or
- September 10, 2025.

 The businesses set out in the position of ACM, mouths transported through a poting of a
- The businesses set out in the notice of AGM, may be transacted through e-voting or evoting facility at the AGM.
- The share transfer book of the Company will remain closed from Thursday September 04, 2025 to Thursday, September 11, 2025 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting.
- 5. The voting right of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the company as on the cut-off date i.e. September 04, 2025. Any persor who becomes the member of the company after dispatch of notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e., September 04, 2025, may obtain the login Id and Passworc by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or investor@ankitonline.com
 The facility for appointment of Proxies by Members will not be available since the AGM is
- should treat the Notice of AGM for information purpose only.

 6. The Members may note that:
- a. once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

being held through VC/OAVM. A person who is not a member as on the cut- off date

- the facility for e-Voting on CDSL platform shall also be available at the e-AGM;
 the members who have exercised their vote by remote e-Voting may also attended the e-AGM but shall not be entitled to cast their vote again;
- a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Cut-off date i.e.
 Thursday, September 04, 2025, shall be entitled to avail facility of remote e-Voting as well as e-Voting at the e-AGM;
- e a person who is not a member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purpose only.
- 6. In case of any query or grievance pertaining to e-voting and attending the AGM through VC/OAVM, Members may contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr.Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25° Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at toll free no. 1800 21 0991. For details relating to remote e-voting, joining the AGM through VC and e-Voting at the AGM, please refer to the Notice of the AGM. If you have any queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evotingindia.com.
- Mr. Rajeev Raj Kumar, a Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 6334), Proprietor, M/s. KKR & Company has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize
- the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

 8. Corporate members intending to appoint their authorized representatives pursuant to Section 112 and 713 of the Act, as the case may be, to attend the e-AGM through VC. OAVM or to vote through remote e-Voting/e-Voting during e-AGM, are requested to send a certified true copy of the board resolution to the Scrutinizer by e-mail at kkrandcompany@gmail.com with a copy marked to CDSL www.evotingindia.com and to the Company at compliance@ksoils.in.
- to the Company at <u>compliance(@ksolls.in.</u>).

 The results shall be declared as per regulation 44 of SEBI (LODR) Regulation 2015 read with the applicable provision of the Companies Act, 2013 from the conclusion of the meeting by posting the same on the website of the Company www.ksoils.in, CDSL website at www.evotingindia.com and also stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com Ltd & National Stock Exchange of India Limited www.nseindia.com.

For KS Oils Limited Jyoti Sharma Company Secretary & Compliance Officer ACS 55135

SIL INVESTMENTS LIMITED

CIN NO : L1/301RJ1934PLCU02/61

Regd.Office: Pachpahar Road, Bhawanimandi 326502 (Raj.) Tel No. : (07433)222052/54/82

Email: investor originances@cilinvestments in Website: www.silinvestments in

Special Window for Re-Lodgement of Transfer Requests of Physical Shares of SIL Investments Limited Pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 02"

Pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 02nd July, 2025 all the shareholders of the Company are hereby informed that a Special Window is open for a period of six months, from 07^m July, 2025 till 06^m January, 2026 for re-lodgement of transfer requests of physical shares, which were lodged prior to the deadline of 01st April, 2019 and rejected / returned / not attended due to deficiency in the documents / process / or otherwise.

Investors who have missed the earlier deadline of 31st March, 2021 (the cut-off date for re-lodgement of transfer deed) can take this opportunity by furnishing the necessary documents to the Company's Registrar and Transfer Agent - MUFG Intime India Private Limited, C-101, Embassy 247, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai-400083, Tel: +918108116767 and email: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com

Place : Mumbai Lokesh Gandhi Date: 20" August, 2025 Company Secretary and Compliance Officer



NIT/Enquiry No. Description / Subject - Last date and time for Submission of bid(s).
E172500137 - Procurement of EPSON 008 lnk bottles for EPSON M15180 MFP A3 Printers through

Rate contract for a period of 2 years - 21.08.2025 - 17:00 Hrs.

E132500157 - Procurement of Permitted Electronic Detonators for use in blasting of coal underground mines in all areas of SCCL for a period of Nine months - 21.08.2025 - 17:00 Hrs.

Various modes for a period of 2 years - 22.06.2025 - 17:00 Hrs.

E012500141 - Design, Engineering, Procurement, Supply, Installation, Testing and Commissioning of cumulative capacity of 15000 KWp (DC) on-grid Roof Top Solar Plants on the colony residential buildings and office buildings at different areas of SCCL with 10 years - 25.08.2025 - 17:00 Hrs.

E192500146 - Hiring of School Bus with 54+1 seating capacity for use at SCWJC for a period of

DIPR R.O. No. : 515-PP/CL-AGENCY/ADVT/1/2025-26, Date: 20-08-2025

F072500108 - Procurement of Fire Extinguishers of various capacities along with 8 years comp

nance contract after completion of 2 years warranty period - 25.08.2025-17:00 Hrs.

years - 28.08.2025 - 17:00 Hrs.
E152500143 - Procurement of Wear Plates (Thru-hardened) of ESAB Make on Rate Contract bas period of two years - 03.09.2025-17:00 Hrs.

E172500138 - Comprehensive Annual maintenance Contract for 1140 Nos. of EPSON various models for a period of 2 years - 22.08.2025 - 17:00 Hrs.

SULLEJ SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED

Regd.Office: Pachpahar Road, Bhawanimandi 326502 (Raj.) Ph:(07433)222052/54/83

Fmail: investor relations@sutleitextiles.com Website: www.sutleitextiles.com

Special Window for Re- Lodgement of Transfer Requests of Physical Shares of Sutlej Textiles and Industries Limited

Pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated 02nd July, 2025 all the shareholders of the Company are hereby informed that a Special Window is open for a period of six months, from 07th July, 2025 till 06th January, 2026 for re-lodgement of transfer requests of physical shares, which were lodged prior to the deadline of 01st April, 2019 and rejected / returned / not attended due to deficiency in the documents / process / or otherwise.

nvestorswho have missed the earlier deadline of 31st March, 2021 (the cut-off date for re-lodgement of transfer deed) can take this opportunity by furnishing the necessary doubtenents to the Company's Registrar and Transfer Agent - MUFG Intime India Private imited, C-101, Embassy 247, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Tel: +918108116767 and email: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com.

For Sutlej Textiles and Industries Limited Sd/-Mumbai Manoj Contractor ^{III} August, 2025 Company Secretary and Compliance Officer

Navigate markets with focused insight.

PR/2025/ADVT/MP/76

Get daily sector trends, market movers, and sharp insights — *every day* with **The Compass** in Business Standard.



Business Standard Insight Out

businessstandard 💢 bsindia 👩 business.standard

कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाई



अकलेरा @ पत्रिका. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर बुधवार को यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. गिर्राज कार्यकर्ताओं के साथ उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजीव रखी। पंचायत राज तंत्र को भी उनकी

दूरदृष्टि और व्यापक सोच से मजबूती मिली। इस दौरान अकलेरा नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पकांत, उपाध्यक्ष मीना ने झालावाड़ स्थित कार्यालय पर सलीम मंसूरी, प्रधान प्रतिनिधि दिलीप नामा, मनोहरथाना विधानसभा यथ कांग्रेस अध्यक्ष योगराज, जनप्रतिनिधि सुरेश, बृजमोहन, हेमराज, गिर्राज, गांधी ने देश में संचार क्रांति की नींव भूरा, कमलेश, गोविंद सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।



भवानीमंडी @ पत्रिका. ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर कांग्रेस कार्यालय में इस अवसर पर गोष्ठी हुई।कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश

गहलोत, नगर कांग्रेस अध्यक्ष विनय आसतौलिया, पार्षद हरीश राठौर, अख्तर अली, प्रदेश सचिव युवक कांग्रेस राजिक अंसारी, आनंद काला, पार्षद राम बेरवा, रामगोपाल पाटीदार, सतीश पोरवाल, फखर बेग सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित



भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई। कार्यक्रम में कांग्रेस सेवादल यंग बिग्रेड के जिलाध्यक्ष नईम पठान ने बताया कि गांधी ने अपनी दूरदर्शी सोच और प्रगतिशील विचारों से कार्यकर्ता मौजूद रहे।

असनावर @ पत्रिका. कस्बे में भारत को आधुनिकता और तकनीकी बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्रांति की राह पर आगे बढ़ाया। इस दौरान जनपद राधेश्याम भील, सेवादल नगर अध्यक्ष मांगीलाल मेघवाल, हुकमचन्द यादव, भगवान सिंह गुर्जर, देवीलाल गुर्जर, शुंभ मेघवालसहित

तहसीलदार के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग



झालावाड़ @ पत्रिका. राजस्थान है। इस पर उपखंड अधिकारी बधवार को जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि जिला दौसा के

तहसीलदार सेवा परिषद की ओर से असनावर विकास प्रजापति, अकलेरा तहसीलदार महेन्द्र चतुर्वेदी की अगुवाई में जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर कठोर कार्रवाई की मांग की।इस तहसीलदार कार्यालय में कुछ दौरान एडीएम अभिषेक चारण, अधिवक्ताओं द्वारा घुसकर कार्यालय झालरापाटन तहसीलदार नरेन्द्र मीणा, में तोडफोड व तहसीलदार के साथ काननगो संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष मारपीट कर राजकार्य में बाधा पहुंचाई सरिता शर्मा आदि मौजूद रहे।

आंकखेडी में बनेगी भव्य गोशाला

झालावाड @ पत्रिका. ग्राम पंचायत आंकखेडी में 1 करोड रूपए की लागत से बनने वाली गौशाला का शिलान्यास एवं भूमि पूजन बुधवार को जिला गोपालन समिति के अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ के मुख्य आथित्य व कालुराम मेघवाल की अध्यक्षता में किया गया। संत श्री बालकदास महाराज विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने आशीर्वचन देकर गोशाला निर्माण को क्षेत्र की ऐतिहासिक पहल बताया। जिला कलक्टर ने कहा कि चौहानों का खेडा निवासी रामसिंह चौहान ने अपने खाते की साढे चार बीघा भूमि दान देकर जिस भाव से गोशाला निर्माण के लिए योगदान दिया है, वह वास्तव में अद्वितीय और प्रेरणादायी है। गोशाला केवल पशुओं के संरक्षण का स्थान नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का प्रतीक हैं। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि मानसिंह चौहान,प्रधान सुलतान सिंह चौहान,सीईओ शंभुदयाल मीणा, उपखण्ड अधिकारी श्रद्धा गोमे,सरपंच संघ राजस्थान अर्जुन सिंह, मांगूसिंह चौहान आदि मौजूद रहे।

करणी सेना के जिलाध्यक्ष बने इशुप्रताप



झालावाड़ @ पत्रिका. राष्ट्रीय करणी सेना की ओर से सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत की सहमति से तथा पूर्व सरपंच विजय प्रताप सिंह झाला, सौदान सिंह झाला, रविन्द्र सिंह चंद्रावत, सूरजप्रताप सिंह हाड़ा की उपस्थिति में जिलाध्यक्ष पद पर इशूप्रताप सिंह, जिला प्रभारी देवेंद्रसिंह सोनगरा को मनोनीत किया गया।

पीडित प्रतिकर का लाभ देने के लिए समिति की बैठक संपन्न



झालावाड़ @ पत्रिका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शशि गजराना की अध्यक्ष में बुधवार को जिला बाल पीड़ित मुआवजा सहायता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर अभिषेक चारण, बाबूलाल मीणा अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महिला सेल, शिवराजसिंह हाड़ा अध्यक्ष बाल कल्याण समिति मौजूद रहे।बैठक मे पोक्सो से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई। पीड़ितों को प्रतिकर दिलाए जाने के लिए कार्यवाही के बारे में चर्चा की गई। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महिला सेल झालावाड़ को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित धारा के प्रकरणों को ऑनलाईन पोर्टल पर समय पर अपलोड करने के लिए निर्देशित किया।

जिनालय में

अकलेरा. अजितनाथ जैन मंदिर पर समाज के लोग पूजा अर्चना करते हुए

रायपुर.पर्युषण महापर्व के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुए।

कराया। इसमें समाजबंधुओं ने की सुंदर अंग रचना की गई।

पर प्रातः प्रक्षाल पुजा और परमात्मा

की स्नात्र पूजा राजेंद्र कुमार गेलडा

परिवार ने की। पूजा के बाद सामूहिक

आरती का आयोजन हुआ तथा

अष्टाह्निका व्याख्यान का वाचन

कालराम पामेचा ने किया। इस दौरान

मंदिर को सजाया गया और परमात्मा

प्रशासनिक नियंत्रण राजस्थान उच्च

न्यायालय के अधीन दिए जाने के

संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर

महासचिव भैरूलाल राठौड़,अध्यक्ष

महबूब खान ने कई बार रजिस्टार

जनरल को ज्ञापन सौंपे,लेकिन अभी

तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं

हो पाई है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष

धीरज सिंह,धीरज राठौर, सुमंगल

महेश्वरी, सोबिल जैन,गिरिराज मीणा

अवैध कब्जा हटाया

मुख्यालय पर बुधवार को राजस्व

विभाग ने कैंप लगाकर पेनल्टी

मदनलाल वर्मा ने बताया कि ग्राम

पंचायत आवर के गांव लाङ्खैड़ा,

देवगढ, मारूखेडी आदि में ग्रामीणों

ने चारागाह एवं सरकारी भूमि पर

अवैध कब्जा कर रखाँ था।

शिकायतों के आधार पर राजस्व

विभाग ने कार्रवाई करते हुए 14

हेक्टेयर सरकारी भूमि एवं 9

हेक्टेयर चारागाह भर्मि का अवैध

कब्जा हटाया तथा पेनल्टी वसूली।

य राजस्थान पत्रिका में 18 जुलाई

को चारागाह भूमि पर ग्रामीणों द्वारा

किए गए अवैध कब्जे की खबर

प्रकाशित हुई थी। इसके बाद

प्रशासन ने यह कार्रवाई की।

नाम परिवर्तन

मेरे टीसी क्रमांक 1485 में नाम

शाहिर मियां दर्ज है जबकि मेरे आधार

दस्तावेजों में मेरा नाम शाहिर हुसैन पुत्र

छोटे खां दर्ज है। भविष्य में मुझे शाहिर

हसैन के नाम से जाना पहचाना जावे।

Khedi, District Jhalawar

change my name RUGH

RAGHUNATH SINGĤ.

• **मैंने** मेरा नाम कपिल कुमार

लालवानी s/o वासुदेव लालवानी से

भविष्य में मुझे कपिल लालवानी के

नाम से पहचाना जाए !पता-बी -40

मेरे पुत्र निहाल सुमन के विद्यालय

की 10th की मार्कशीट में मेरी पत्नी

का नाम सुगन्ध सुमन दर्ज हो गया था

नाम सुगन बाई है हमें इसी नाम से

• मेरी पुत्री SEZAL MALIK के

शैक्षणिक दस्तावेजों में माता का नाम

RUBEE MALIK अंकित हो गया हे

MALIK है जो सही हे RUBEENA

MALIK (माता) 86 अटवाल नगर

पुलिस लाइन कोटा (राजस्थान)

जबकि सभी दस्तावेज में मेरी पत्नी का

रॉयल सिटी देवपुरा बूंदी pin

323001

बदलकर कपिल लॉलवानी कर लिया है

नवास गरमपुरा लाखेरी जिला बूंदी। मो

कार्ड, पैन कार्ड सहित समस्त

नं:-9828345197

वसूल की।नायक

पत्रिका. पंचायत

तहसीलदार

आदिमौजूद रहे।

आवर@

मालवा से बुलाया गया है।

सुनेल. कस्बे के श्वेताम्बर जैन

समाज का पर्युषण पर्व बुधवार से

आरंभ हुआ। इस अवसर पर

चन्द्राप्रभु जैन श्वेताम्बर मंदिर में

विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित

किए जा रहे हैं।समाज के कैलाशचंद

चौपड़ा ने बताया कि प्रातः पक्षाल

पूजा, केसर पूजा के साथ स्वाध्यायी

देवेश जैन व प्रतीक जैन के प्रवचन

हए। दोपहर एक बजे स्नात्र पुजा का

आयोजन हुआ, जिसमें विधिकारक

मधुसूदन श्रृंगी ने संगीतमय पूजन

झालावाड @ पत्रिका. राजस्थान

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण

कर्मचारी संगठन ने रजिस्टार

जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर के नाम न्यायाधीश मोटर

दुर्घटना दावा के पीठासीन अधिकारी

दीपक दुबे को ज्ञापन सोंपा। ज्ञापन में

बताया कि राजस्थान सरकार के

राजस्थान में संचालित समस्त मोटर

दुर्घटना दावा अधिकरण का

अनुसार





पत्रिका न्यूज नेटवर्क patrika.com

अकलेरा. नगर स्थित अजितनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर में बुधवार से 8 दिवसीय पर्युषण महापर्व की आराधना आरंभ हुई।प्रवक्ता यशवंत जैन ने बताया कि साध्वीवर्या श्री रत्नरिद्धि श्री जी एवं श्री रत्नवृद्धि श्री जी म.सा. के निश्रा में श्रीसंघ अध्यक्ष पारस जैन लुणावत की अध्यक्षता में यह महापर्व आरंभ हुआ। इस अवसर पर परमात्मा की अखंड ज्योत प्रज्ज्वलित की गई।महापर्व के दौरान प्रतिदिन सुबह से रात्रि तक प्रतिक्रमण, अभिषेक, पूजा, प्रवचन, तपस्या, महापूजन, आरती, प्रभुभिकत व विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इसमें अकलेरा सहित आसपास के 10 श्रीसंघों के समाजजन भाग लेंगे। आठों दिन पूजन व भक्ति संगीत के लिए गोवर्धन भाई एंड पार्टी को आगर

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोंचिग के लिए 14 तक करें आवेदन

झालावाड@ पत्रिका. सामाजिक -याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सम्मिलित प्रोफेशनल कोर्स के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं एवं सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विभाग के उप निदेशक रामनिवास यादव ने बताया कि अनुप्रति कोंचिंग में स्टूडेन्ट के विकल्प पर जाकर 14 सितम्बर 2025 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

तारज में 113 यूनिट रक्तदान

तारज (सारोला कलां) @ पत्रिका. श्री झारखंड महादेव मंदिर परिसर में शिविर का आयोजन किया गया। कैंप 👖 आयोजक आशु मालव ने बताया कि शिविर में कुल 113 यूनिट रक्त संग्रह



अनुमोदित प्रस्ताव

हुआ, जिसमें ग्रामवासियों. क्षेत्रवासियों एवं बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लेकर रक्तदान किया शिविर का आयोजन श्री द्यारखंद महादेव समिति एवं रक्त कोष फाउंडेशन के तत्वावधान और संत श्री कृष्ण दास निर्मोही के सान्निध्य में में हुआ, जिसमें समिति के सभी सदस्यों का सहयोग रहा। रक्त संग्रह का कार्य

एसआरजी ब्लड सेंटर झालावाड़ की टीम ने किया।



 सन्दर जाट कन्याएं- विधवा. निःसंतान 37/5'4" 10वीं और अविवाहित 28/5'4" 12वीं पास कन्याओं हेतु- किसान/ कम पढे/ एजुकेटेड जाट वर सम्पर्कः-9887700349

राजपुत

• **ब्यूटीफुल** राजपूत कन्याएं-

अविवाहित 35/5'5" 12वीं तथा

अविवाहित 25/5'6" ग्रेजुएट और

विधवा. नि:संतान 40/5'4" 10वीं

एजुकेटेड/ कम पढे वर सम्पर्क:-

पास कन्याओं हेतु- जमींदार/

सभी आयु वर्ग **Govt. Registered**

वर चाहिए

अन्तरजातीय

भारत की नं 1 संस्था आपकी सेवा मे 11 वर्षो से कार्यरत सभी जाति- धर्म समाज के विवाह योग्य, अविवाहित विधुर, विधवा, तलाकशूद वर, वधु के लाखो रिश्ते महिलाओ के लिए फ्री रजिस्ट्रेश

9672580516 8000385643

ब्राह्मण (३१ वर्ष एवं अधिक)

Govt. Registered वर चाहिए ब्राह्मण कन्याये 10वीं पास 38 वर्षिय विधवा नि:संतान युवती एवं 12वीं पास 32 वर्षिय अविवाहित कन्या गृहकार्य में दक्ष सुन्दर, सुशील गरीब मध्यम परिवार की कन्याए

प्राथमिकता, सभी ब्राह्मण वर स्वीकार सम्पर्क करें :-6376905552

राजस्थान वाले ब्राह्मणों को



आवश्यकता

कस्युटर कर्मी

TELECOM 5G कंपनी (SMS SENDING CALLING JOB) करके लडके-**21 से 25 वर्षीय** लडिकया, गृहणिया, रिटायर्ड पर्सन, स्टूडेंट घरबैठे कमाए (21500- 48500) महीना (लैपटॉप+ मोबाइल मुफ्त)

NAME, पता **QUALIFICATION, CALL** /SMS /WHATSAPP करें: 9128762483

Required Physician MD/

(जातिबंधन नहीं)- 9772898439 चिकित्सा कमी

अन्य DNB Medicine, Salary-4.5 (२१ से २५ वर्षीय) Lac + Incentive + Free Accommodation, Ophthalmologist MS / DNB/ **(बन्धन** नहीं) - टेलर (दर्जी) DO, Phaco Surgeon, General & Laparoscopic Surgeon MS/

कन्याएं- विधवा, निःसंतान 40/5'5" 10वीं एवं 32/5'5" 12वीं तथा **DNB Contact-Bindal Hospital** 28/5'4" ग्रेजुएट अविवाहित कन्याओं Pvt. Ltd. Didwana हेत्- शहरी/ ग्रामीण/ कम पढे/ (Rajasthan) 9314219932, एजुकेटेड वर चाहिये।:bindalhospitalsikr@gmail.co 9982169545

पाठकों को सलाह

पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी विज्ञापन (सामान्य , वैवाहिकी) पर कार्यवाही जैसे पैसा भेजना, कोई खर्चा करना या प्रकाशित विज्ञापन के विश्वास पर किसी प्रकार सम्बन्ध बनान आदि करने से पूर्व आवश्यक/ सम्पूर्ण (वैवाहिकी हेतु स्टेट्स उम्र एवं आय आदि) जानकारी कर लेवें। यह समाचार पत्र विज्ञापनदाता द्वारा जारी किए गए किसी भी प्रकार के दावे/ प्रस्तुतीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है। -व्यवस्थापक

कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी सुनेल @ पत्रिका. क्षेत्र के हेमड़ा

स्थित बालाजी मंदिर में मंगलवार रात विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में बैठक आयोजित की गई। बैठक में नवीन कार्यकारिणी का गठन कर कार्यकर्ताओं विभिन्न को सौंपी। संयोजक जिम्मेदारियां संदीप, सह संयोजक गोविंद, मीडिया प्रभारी पवन, विद्यार्थी प्रमुख प्रेम चौधरी, सुरक्षा प्रमुख धनराज, गोरक्षा प्रमुख हेमराज बल उपासना केंद्र प्रमुख पुष्पेंद्र नगर मंत्री कन्हैयालाल, अध्यक्ष दीपक तिवारी, मिलन केंद्र प्रमुख विशाल, मकेश, राधेश्याम, सुनील, सूरज, अभिषेक को दायित्व सौंपे गए। सभी कार्यकर्ताओं को राष्ट्र और धर्म की सेवा व सुरक्षा का संकल्प दिलाया गया।बैठक में प्रखंड उपाध्यक्ष रमेश, प्रखंड संयोजक शिवलाल, प्रखंड सह संयोजक मांगीलाल, खंड संयोजक उत्साहपूर्वक भाग लिया। सांय 8 बजे गोपाल, नगर मंत्री दुर्गाशंकर, गजेंद्र महाआरती तथा रात्रि में बच्चों द्वारा तिवारी, रामेश्वर सेठी सहित सर्व प्रतिक्रमण का आयोजन किया गया। हिंदु समाज के कार्यकर्ता उपस्थित रायपुर. श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिनालय में बुधवार से पर्युषण महापर्व की शुरुआत हुई। इस अवसर

SUILE | **सतलज टैक्सटाईल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड**

साआक्षरण न : ETT 24702009TE0020927 पंजीकृत कार्यालय : पण्यपाइत रोड, भावानीमंडी-326502 (राज) टेलीफोन (07433)222052/54/82 ई-मेल आईडी : investor.relations@sutlejtextiles.com वेबसाईट : www.sutlejtextiles.com

सतलज टेक्सटाइल्स एण्ड इण्डस्टीज लिमिटेड के भौतिक शेयरों के ट्रांसफर अनुरोधों के पुनः प्रस्तुतीकरण हेतु विशेष विंडो

2025/97 दिनांक 02 जुलाई, 2025 के अनुसार कंपनी के सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक (छह माह की अवधि हेतु) एक विशेष विंडो खोली गई है । इस अवधि में वे सभी निवेशक, जिनके भौतिक शेयर ट्रांसफर के अनुरोध 01 अप्रैल, 2019 की समय-सीमा से पूर्व जमा किए गए थे और जिन्हें दस्तावेज़ों /प्रक्रिया की कमी अथवा अन्य कारणों से अस्वीकार ू बोटाया / अनुपस्थित कर दिया गया था, वे पुनः अपने ट्रांसफर अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त, जिन निवेशकों ने पहले की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 (ट्रांसफर डीड पुनः जमा करने की कट-ऑफ तिथि) को चूक गए थे, वे भी इस अवसर का लाभ ले के, आवश्यक दस्तावेज़ कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट - एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, एम्बेसी 247, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, विक्रोली (प), मुंबई - 400083, संपर्क नंबर (+ 91) 81081 16767 और ईमेल

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/

आईडी : rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com को प्रदान कर सकते है ।

एसआईएल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

सीआईएन नं. : L17301RJ1934PLC002761 **बीकृत कार्यालय** : पचपहाड़ रोड़, भवानीमंडी-326502 (राज.) **टेलीफोन :** (07433)222052/54/82 **ई-मेल आईडी :** investor.grievances@silinvestments in **वेबसाईट** : www.silinvestments.in एसआईएल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के भौतिक शेयरों के

ट्रांसफर अनुरोधों के पुनः प्रस्तुतीकरण हेतु विशेष विंडो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR 2025/97 दिनांक 02 जुलाई, 2025 के अनुसार कंपनी के सभी शेयरधारकों को सुचित किया जाता है कि 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक (छह माह की अवधि हेतु) एक विशेष विंडो खोली गई है। इस अवधि में वे सभी निवेशक, जिनके भौतिक शेयर ट्रांसफर के अनुरोध 01 अप्रैल, 2019 की समय-सीमा से पूर्व जमा किए गए थे और जिन्हें दस्तावेजों/प्रक्रिया की कमी अथवा अन्य कारणों से अस्वीकार / लौटाया / अनुपस्थित कर दिया गया था, वे पुनः अपने ट्रांसफर अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त. जिन निवेशकों ने पहले की अतिम तिथि 31 मार्च, 2021 (ट्रांसफर डीड पुन: जमा करने की कट-ऑफ तिथि) को चूक गए थे, वे भी इस अवसर का लाभ ले के, आवश्यक दस्तावेज़ कंपनी वे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट - एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, एम्बेसी 247, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, विक्रोली (प), मुंबई - 400083, संपर्क नंबर (+ 91) 81081 16767 और ईमेल आईडी : rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com को प्रदान कर सकते है ।

N WOMAN'S EDUCATIONAL & VOCATIONAL TRAINING SOCIETY, NEW DELHI क्रमांकःप्रशि/डीएसबी/बीकानेर/ECCE/25 Regd. by NCT Govt. of New Delhi दिनांक : 18.08.2025 Regd. No. 35433.

प्रवेश सुचना

EARLY CHILDHOOD CARE & EDUCATION नियमित/पत्राचार माध्यम द्वारा

ECCE Certificate Course इडियन वमन एज्युकेशनल एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग सोसाइटी, नई दिल्ली जो NCT Govt. of New Delhi से रजि संस्थान है जो कि भिन्न-भिन्न राज्यों में टीचर्स ट्रेनिंग (ECCE) का प्रशिक्षण देने का कार्य नेशनल कौंसिल ऑफ

एज्यूकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग भारत सरकार (N.C.E.R.T. Govt. of India) द्वारा निर्देशित पाठ्यक्रम द्वारा संचालित किया जाता है संस्थान द्वारा पाठयक्रम का संचालन नियमित (Regular) व पत्राचार (Correspondence) इंडियन वूमेन एज्यूकेशनल एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग सोसाइटी, नई दिल्ली ने राजस्थान में बीकानेर के DOON

SCHOOL BIKANER को EARLY CHILDHOOD CARE & EDUCATION के पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण को संचालित करने की मान्यता प्रदान की है। जिस पर संस्थान द्वारा EARLY CHILDHOOD CARE & EDUCATION (ECCE) पत्राचार/नियमित माध्यम द्वारा पाठयक्रम के प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है :

पाठ्क्रम का विवरण

पाठयक्रम का नाम : EARLY CHILDHOOD CARE & EDUCATION (ECCE) प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा

अवधि 1 वर्ष (केवल महिलाओं के लिए) योग्यता **:** XII [™] पास

आवेदन करने की प्रक्रिया : अभ्यार्थी नीचे दिए गए आवेदन पत्र के अनुरूप हस्तलिखित / टाईप करवाकर अपनी योग्यता संबंधी सभी दस्तावेजों की फोटो प्रति सहित स्पीडपोस्ट/ रजि. डाक या कोरियर से संस्थान के कार्यालय पर दिनांक 30.08.2025 तक सांय 5 बजे तक पहंचा सकते हैं।

कार्यालय का पता जहाँ आवेदन भेजना है।



DOON SCHOOL, BIKANER

Recognized by Govt. of Rajasthan N.H. 15, Darbari Fanta, Post Gajner, Bikaner-334001 Mob. 8619005514, 8239441401

ADMISSION FORM

Name Father's Name Mother's Name РНОТО Date of Birth Contact No. Education Qualification ___ Medium of Instruction Home Address with pin code

DECLARATION

I hereby declare that I have read the prospectus carefully and the terms and conditions of the institution are acceptable to me. I am joining this course with full consent & knowledge of my parent/guardian, at our own risk & responsibility knowing all the facts. The information have here is true to the best of my knowledge and belief. Signature of Candidate

वस्त्र उद्योगकर्म

टेलर, की आवश्यकता है तुरंत सम्पर्क

करें 8824225587, 8890658790

चिकित्स कमी

• **मेल** फिमेल नर्सिंग स्टॉफ.अच्छा

वेतन तुरंत सम्पर्क करें: मेहता नर्सिंग

आयु सीमा नहीं

नोट : हमारी बीकानेर और जयपुर के अलावा और कोई भी ब्रांच नहीं है। Jaipur Branch : Doon Public School, A-24/25, Satyanagar, Jhotwara, Jaipur-302012

क्लासीफाइड

कोटा

मेरा नाम दस्तावेजों के अनसार

नाम मिहिका MIHIKA हो गया,

पढा व जाना जाए

नाम मिहिका जैन MIHIKA JAIN

मिहिका जैन MIHIKA JAIN है परंत् भुलवश पासपोर्ट R1009465 में मेर दस्तावेज अनसार भविष्य में मेरा सही

किराये के लिए

550 वर्गफुट एरिया की दुकान

गैर रिहायशी • एक दुकान साइज 12X9 मय

फर्नीचर FIRST FLOOR पर महावीर I, RAGHUNATH R/o Bans नगर 3rd सिध् स्ट्रियो के पास ऑफिस पर्पस हेतु 7 लाख मे बिकाऊ NATH SINGH to RAGHUNATH 8209819297 SINGH. In future my name is

खाया-पाय

 मैं यशोदा नंदन पारीक निवासी 4 B-31, दादाबाड़ी विस्तार योजना मेरे मकान का मूल अदेय प्रमाण पत्र एवं किसी को मिले सूचित करे मो.

कैरियर संबंधी विज्ञापन जबकि उसका सही नाम RUBEENA

और शनिवार

शिक्षक/द्युटर

योजना कोटा 9413730686, 9829976519 में प्राइमरी एवं सेकेंड्री कक्षाओं के लिए सभी Subjects Teachers एवं computer operator की आवश्यकता है

• वल्लभनगर गुमानपुरा स्थित शिव ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भौतिक कब्जा पत्र कही खो गए है जिस (ENGLISH MEDIUM) में senior classes हेतु प्रशिक्षित/ अनुभवी अध्यापिकाओं की सम्पर्क-

Medium CBSE School प्रत्येक बुधवार Science, Computer, Peon. Contact: 8432885263, apskota02@gmail.com

कार्यालयकर्मी

• एक रेडीमेड शोरूम पर आल्टरेशन CA ऑफिस कार्य हेतु ऑफिस बॉय की आर.ए. अग्रवाल एण्ड एसोसिएटस, 1st floor 25-सी इंडसइंड बैंक के सामने शोपिंग सेन्टर कोटा 9414177130

कोटा में इवेंट मैनेजर की आवश्यकता है अनभवी ही संपर्क करें-9829035333

सल्यकर्मा

• **नई** खाद्य मसाला कम्पनी हेतु हाड़ौती में सेल्स कार्य हेतु अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है मो. 9462403991

• **आवश्यकता** अनुभवी टेली

ऑपरेटर फिमेल और सबमर्सिबल पंप, पाइप की मार्केटिंग हेतु सेल्समेन की आवश्यकता एरोडाम नई धानमण्डी मो.9829156381 • **आवश्यकता**- ज्वेलरी शोरूम के

लिए सेल्समैन-2, फीमेल रिसेप्शनिस्ट-2 एवं ऑफिस बॉय,

फेशर भी अप्लाई कर सकते हैं!अच्छी सैलरी,- अग्रवाल डायमंड, चौपाटी बाजार, कोटा

कस्युटर कर्मा

• घर बैठे Online Data Entry Form Fill -up करके (18000 -25000/-) कमाऐ No Target, कोटा -संपर्क-9783923113

होटल कर्मी

• **होटल** भारत गुमानपुरा कोटा में अनुभवी रुमबॉय, सफाई कर्मचारी • **Teachers** Required English आवश्यकता है। ड्यूटी समय 8 घंटे, सम्पर्क : 9166198778

फ़ास्ट फ़ुड कैफ़े पर काम करने के लिए अनुभवी शेफ की ज़रूरत है संपर्क करे 6376670708 कोटा (राजीव

के लिए जिम्मेदार नहीं है।

-व्यवस्थापक

गैर रिहायशी

हॉस्पिटल रोड रामपुरा में डॉ. कछवाहा के पास किराये पर देनी है। सम्पर्क-9660765965, 9461072257



आवश्यकत

• **सेन्ट** जस्टिस पब्लिक स्कूल रंगबाड़ी

Chandresal Kota (PGT, TGT) English, Maths, SST, Hindi,

होम, 139 वल्लभबाडी, कोटा, मोबाइल 9829037433. तकनीकी कर्मचारी

& Gujarat Experienced Turner- 10, Machinist-10, Helper - 25 Qualification -ITI/ Diploma Free Accommodation, Immediate

Urgent Hiring in Rajasthan

Joining- 9079131232, 9571006238, 7023402019 सुरक्षाकर्म

अनभवी फील्ड ऑफिसर की आवश्यकता है वेतन योग्यता अनुसार। सम्पर्क करें- 7296835953 अन्य

• कोटा में सिक्युरिटी एजेंसी हेत्

• मोहम्मद कन्स्ट्रक्शन कम्पनी DCM रोड कोटा वर्क शॉप हेतु हेल्परों की आवश्यकता सम्पर्क मो. 9950699627, 9680553769

पाठकों को सलाह

पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी विज्ञापन ६ कि किसी मी विज्ञापन (सामान्य/वैवाहिकी) पर कार्यवाही जैसे पैसा भेजना,

कोई खर्चा करना या प्रकाशित विज्ञापन के विश्वास पर किसी प्रकार सम्बन्ध बनाना अदि करने से पूर्व आवश्यक/ सम्पूर्ण (वैवाहिकी हेतु स्टेट्स, उम्र एवं आय आदि) जानकारी कर लेवें। यह समाचार पत्र विज्ञापनदाता द्वारा जारी किए गए किसी भी प्रकार के दावे/ प्रस्ततीकरण